

# सत्र सितम्बर 2020

देवी अहिल्या विश्व विद्यालय इन्डौर  
अग्रेशण केन्द्र – इस्लामिया करीमिया महाविद्यालय इन्डौर  
स्वाध्यायी (Private) परीक्षार्थी

Sc.F-10

Max. marks 50/Min marks 17

B.Sc. I year (3.Y.D.C) Examination  
गणित MATHEMATICS  
PAPER- 1  
ALGEBRA AND TRIGNOMETRY

**नोट :** सभी प्रश्नों के 10 अंक निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Every question have 10 marks, All questions are compulsory  $5 \times 10 = 50$

प्र. 1 आव्यूह  $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{bmatrix}$  के आइमेन मान और संगत आइमेन सदिशों को ज्ञात कीजिए।

Determine the eigen value and corresponding eigen vectors of the matrix

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{bmatrix}$$

प्र. 2 आव्यूह  $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$  के अन्मिलाक्षणिक समीकरण को ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि यह

$A$  द्वारा संतुष्ट होता है और अतः  $A^{-1}$  ज्ञात कीजिए।

Find the characteristics equation of the matrix  $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$  and verify that it is

satisfied by  $A$  and hence obtain  $A^{-1}$ .

प्र. 3 निम्न व्युत्क्रम समीकरण को हल कीजिए  $x^4 - 10x^3 + 26x^2 - 10 + 1 = 0$

Solve the following reciprocal equation:  $x^4 - 10x^3 + 26x^2 - 10 + 1 = 0$

प्र. 4 यदि  $p$  और  $q$  दो कथन हैं, तो दर्शाइए कि निम्न पुनरुक्तियाँ हैं :–

$$(a) \sim(p \wedge q) \Leftrightarrow (\sim p) \vee (\sim q) \quad (b) \sim(p \wedge q) \Leftrightarrow (\sim p) \wedge (\sim q)$$

If  $p$  and  $q$  are two statements, then the following are tautologies

$$(a) \sim(p \wedge q) \Leftrightarrow (\sim p) \vee (\sim q) \quad (b) \sim(p \wedge q) \Leftrightarrow (\sim p) \wedge (\sim q)$$

प्र. 5 यदि  $\cos(\theta + i\phi) = R(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ , तो सिद्ध कीजिए कि  $-\phi = \frac{1}{2} \log \frac{\sin(\theta - \alpha)}{\sin(\theta + \alpha)}$

If  $\cos(\theta + i\phi) = R(\cos \alpha + i \sin \alpha)$  then prove that  $\phi = \frac{1}{2} \log \frac{\sin(\theta - \alpha)}{\sin(\theta + \alpha)}$